

डॉ० गौर हरी जी सिंघानिया का जन्म दिनांक 12 जून, 1935 में सिंघानिया परिवार में हुआ था। डॉ. सिंघानिया जी ने अपने जीवन-काल में अनेकों विज्ञान केंद्रों, संस्थानों तथा अस्पतालों की स्थापना किया था। डॉ० गौर हरी सिंघानिया का कानपुर वासियों तथा कानपुर से अथाह प्रेम था। अपने जीवन काल में वे कानपुर को प्रदेश व देश में महत्वपूर्ण स्थान दिलाने की दिशा में कार्यरत रहे।

मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश अपने पूर्व चीफ पैटर्न स्व. डॉ० गौर हरी जी सिंघानिया के जन्म की 82वीं वर्षगांठ मना रहा है।

मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा "निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर" का आयोजन दिनांक 11 जून, 2017 को सरपदमपत सिंघानिया सभागार, मर्चेट्स चैम्बर, में समय प्रातः 09:00 बजे से 01:00 बजे तक किया जाएगा। तथा इसी क्रम में दिनांक 12 जून, 2017 को समय सायं 0700 बजे से मर्चेट्स चैम्बर सभागार में "भूले-बिसरे गीत" का आयोजन किया जाएगा।

विदित है कि गत कई दशकों से कानपुर शहर में सिंघानिया परिवार द्वारा चिकित्सा क्षेत्र में जो अमूल्य योगदान दिया गया है, वह अतुलनीय है। इसी तारतम्य में शहर के निवासियों विशेषकर आर्थिक रूप से निर्बल वर्ग के मरीजों को शिविर के माध्यम से सिंघानिया परिवार के संरक्षण में अधिक से अधिक परीक्षण, परामर्श व दवा-वितरण का लाभ लेने हेतु चैम्बर द्वारा उपरोक्त शिविर का आयोजन किया जा रहा है।

मर्चेट्स चैम्बर के अध्यक्ष श्री पदम कुमार जैन ने बताया कि शिविर में शहर के कुशल व प्रतिष्ठित चिकित्सक व चिकित्सा सेवा संस्थान अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं, जो कि निःशुल्क होगा। उक्त प्रेस-वार्ता में मधुराज हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, आर.के. देवी मेमोरियल हॉस्पिटल, पालीवाल डायग्नोस्टिक, डॉ. ए.एस. प्रसाद, अन्य विशेषज्ञ एवं उनके सहयोगी डॉक्टर भी उपस्थित थे।

इस शिविर में निम्न चिकित्सक उपस्थित रहेंगे:

अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉ. ए.एस. प्रसाद एवं उनके सहयोगी डॉक्टर, **हृदय रोग विशेषज्ञ** डॉ. आर.पी.एस. भारद्वाज एवं उनके सहयोगी डॉक्टर, **चेस्ट रोग विशेषज्ञ** डॉ. एस.के. कटियार, **नेत्र रोग विशेषज्ञ** डॉ. अवध दुबे व डॉ. गौरव दुबे, **बाल रोग विशेषज्ञ** डॉ. नवीन सहाय व डॉ. सविता रस्तोगी, **साधारण रोग विशेषज्ञ** डॉ. प्रशांत सिंह, **नाक कान गला (ENT) रोग विशेषज्ञ** मधुराज हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड से, **स्त्री रोग विशेषज्ञ** डॉ. नीता चौधरी व डॉ. रश्मि सहाय, तथा **पैथालोजिस्ट** डॉ. उमेश पालीवाल व डॉ. अल्का शर्मा तथा उपस्थित रहेंगे।

पैप स्मीयर परीक्षण हेतु परीक्षण व परामर्श लेने के लिए केवल पंजीकरण करवाया जाएगा तत्पश्चात डॉक्टर से परामर्श लिया सकेगा।

प्रेस-वार्ता में उपस्थित सदस्यों ने बताया कि इस शिविर की निश्चित समयावधि में अनुमानतः 500 मरीजों को परामर्श एवं परीक्षण की क्षमतानुसार तैयार किया गया है।

उन्होंने बताया कि शिविर में निशुल्क परामर्श के अतिरिक्त चिकित्सकों की विशेष संस्तुति पर खून की जाँच, ई.सी.जी., पैप स्मीयर परीक्षण, एक्स-रे व् आँखों का ऑपरेशन भी निशुल्क किये जायेंगेA
इस प्रेस वार्ता में मर्चेट्स चैम्बर के उपाध्यक्ष श्री बी.के. लाहोटी, डॉ. आई.एम. रोहतगी, श्री बी.एम. गर्ग, श्री ए.के. सरोगी, श्री अनिल अग्रवाल, डॉ. अवध दुबे, डॉ. ए.एस. प्रसाद, डॉ. उमेश पालीवाल, डॉ. प्रशांत सिंह उपस्थित थेA

सधन्यवाद

मर्चेट्स चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश